



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 6—अगस्त 12, 2005 (श्रावण 15, 1927)
No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 6—AUGUST 12, 2005 (SRAVANA 15, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued
by
Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

मुंबई-400 021, दिनांक 30 जुलाई 2005

सूचना

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की एक महासभा बुधवार, 14 सितम्बर 2005 को प्रातः 10 बजे स्टेट बैंक भवन परिसर, मैडम कामा रोड, मुंबई-400 021 (महाराष्ट्र) में स्थित भारतीय स्टेट बैंक, मैडम कामा रोड शाखा के पीछे बैंक के सभागृह में निम्नलिखित कार्य हेतु आयोजित की जाएगी :

“भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 19(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के केंद्रीय बोर्ड के लिए तीन निदेशकों की निर्वाचित करना।”

2. दो निदेशकों की रिक्तियां नियमित अनुक्रम (नियमित रिक्ति) में हैं अर्थात् इन रिक्तियों के लिए निर्वाचित दो निदेशकों का कार्यकाल 15.09.2005 से 14.09.2008 तक तीन वर्ष का होगा। तीसरी रिक्ति (विशेष रिक्ति) दिनांक 17.07.2005 को श्री आई. जी. पटेल के स्वर्गवास के कारण उत्पन्न हुई है। इस रिक्ति के लिए निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल

15.09.2005 से 31.08.2007 तक अर्थात् स्व. आई. जी. पटेल का शेष कार्यकाल होगा।

3. जो शेयरधारक नामांकन दाखिल करना चाहते हैं वे नामांकन फार्म और नामांकन फार्म के साथ संलग्न लिफाफे पर यह स्पष्ट उल्लेख करें कि वे किस रिक्ति के लिए आवेदन करना चाहते हैं अर्थात्

(1) नियमित रिक्ति (3 वर्ष)

(2) विशेष रिक्ति (1 वर्ष 11 माह 17 दिन)

4. निदेशकों के निर्वाचन के लिए नामांकन फार्म सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों के मुख्य महाप्रबंधकों के सचिवालय और बैंक के केंद्रीय कार्यालय (कारपोरेट केंद्र) के केंद्रीय बोर्ड सचिवालय में उपलब्ध हैं। नामांकन फार्म सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ केंद्रीय कार्यालय (कारपोरेट केंद्र) में बैठक की नियत तिथि से स्पष्टतया 14 दिन पूर्व अर्थात् मंगलवार, 30 अगस्त 2005 को 5.45 बजे के पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त नामांकन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। लिफाफे पर “शेयरधारक निदेशक के निर्वाचन हेतु नामांकन फार्म” लिखा जाए तथा इसे निम्नांकित पते पर भेजा जाए :

सचिव, केन्द्रीय बोर्ड,
भारतीय स्टेट बैंक,
कारपोरेट केंद्र,
17वीं मंजिल, स्टेट बैंक भवन,
मादाम कामा रोड, मुंबई-400 021

स्थानीय समिति-बेल्लारी क्षेत्र

अध्यक्ष

5. (क) ऐसे शेयरधारक जिनके पास बैठक के दिनांक से कम से कम 3 माह पूर्व 50 एवं इससे अधिक शेयर हैं तथा जो निर्वाचन की तिथि तक बैंक के शेयरधारक रजिस्टर में शेयर धारक के रूप में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान की पात्रता है।
- (ख) ऐसे शेयरधारक जिनके पास अपने स्वयं के 500 एवं इससे अधिक अभारित शेयर हैं, उन्हें चुनाव लड़ने की पात्रता है।

ए. के. पुरवार
अध्यक्ष

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई 2005

सं. यू-16/53/2002-चिकित्सा-2 (म.प्र.)--कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियाँ महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में परित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राजकीय चिकित्सा आयुक्त इंदौर द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती हूँ :

डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉ एम. के. चड्ढा	16.6.05 से 15.6.06	पीतमपुरा (क्षेत्र : धर)

डॉ कमलेश कालरा
चिकित्सा आयुक्त

क्षेत्रीय कार्यालय (कर्नाटक)

बेंगलूर, दिनांक 11 जुलाई 2005

सं. 53/वी/34/14/11/99/हित-II--एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों से युक्त बेल्लारी क्षेत्र की स्थानीय समिति का पुनर्गठन क.रा.बी. (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम-10 'अ' के अंतर्गत अधिसूचित की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है।

1. विनियम 10अ(1)(क) के अनुसार

सहायक श्रम आयुक्त, दावणगिरि

सदस्य

2. विनियम 10अ(1)(ख) के अनुसार

श्रम अधिकारी, बेल्लारी

3. विनियम 10अ(1)(ग) के अनुसार

बीमा चिकित्सा अधिकारी, क. रा. बी. चिकित्सालय, बेल्लारी

4. विनियम 10अ(1)(घ) के अनुसार

नियोजकों के प्रतिनिधि

बेल्लारी स्टीलस एवं अलायन्स लिमिटेड, सर्वे संख्या: 10-11, अनन्तपुर मार्ग, बेल्लारी।

बेल्लारी स्टीलस रोल मिल्स अनन्तपुर मार्ग, बेल्लारी।

पम्पासर डिस्टिलरीज, चित्तवाडिग, होसपेट।

श्री के. एम. यूसफ, महाप्रबन्धक, मैसर्स : एन. के. स्टील प्राइवेट लिमिटेड, अनन्तपुर मार्ग, बेल्लारी।

5. विनियम 10अ(1)(ड) के अनुसार

कर्मचारियों के प्रतिनिधि

श्री हुराली इमाम साहब, अध्यक्ष, पम्पासर इस्लाम कर्मचारी संघ, चित्तवाडिगा, होसपेट।

श्री वेंकटरमण, सी.आई.टी.यू. ऑफिस, बसावनकोला के नजदीक, चौथा वार्ड, आई.एस.आर.रोड, होसपेट

श्री बी. पाल पकीरप्पा, श्री बी. गडेप्पा के पुत्र, जिला अध्यक्ष, बेल्लारी, दुग्ध वर्कर्स संघ (र.), क्रिस्टू निवास, प्लॉट नं.-216, ए, मुख्य मार्ग, घावनी, बेल्लारी

श्री आर. प्रकाश, सचिव, बेल्लारी थियेटर्स वर्कर्स यूनियन, ए.आई.टी.यू.सी. एन-11, के.सी. रोड, बेल्लारी।

सदस्य सचिव

6. विनियम 10अ(1)(च) के अनुसार

शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय,
क.रा.बी. निगम, बेल्लारी।

आदेशकर्ता

जोस चेरियन
क्षेत्रीय निदेशक

STATE BANK OF INDIA

Mumbai-400 021, the 30th July 2005

NOTICE

A General Meeting of the shareholders of the State Bank of India will be held on Wednesday the 14th September 2005, at the Bank's Auditorium, behind State Bank of India, Madame Cama Road Branch, State Bank Bhavan Complex, Madame Cama Road, Mumbai-400 021 (Maharashtra) at 10.00 a.m. for the transaction of the following business :

"to elect three Directors to the Central Board of the Bank under the provisions of Section 19 (c) of the State Bank of India Act, 1955."

2. The vacancies of 2 Directors have arisen in regular course (Regular Vacancy) i.e. the term of the two Directors elected against these two vacancies will be for a period of three years from 15.09.2005 to 14.09.2008. The third vacancy has arisen due to demise of Shri I. G. Patel on 17.07.2005 (Special Vacancy). The term of the Director, who is elected against this vacancy will be from 15.09.2005 upto 31.08.2007, which is unexpired period of Directorship of Late Shri I. G. Patel.

3. The Shareholders who wish to file Nominations should clearly indicate on the nomination form as well as on the cover enclosing their Nomination, form the vacancy against which they would like to apply for.

i.e. (1) Regular Vacancy (3 years)

(2) Special Vacancy (1 year 11 months 17 days).

4. The nomination forms, for the election of the directors, are available with the Secretariat of the Chief General Managers at all the Local Head Offices and the Central Board Secretariat at the Central Office (Corporate Centre) of the Bank. The nomination forms with all connected documents should be received by the Bank at its Central Office (Corporate Centre) not less than 14 clear days before the date fixed for the meeting i.e., before 5.45 p.m. on Tuesday the 30th August, 2005. No nomination form received after the due date will be considered. The cover should be superscribed "NOMINATION FORM FOR ELECTION OF SHAREHOLDERS DIRECTORS" and addressed to :

The Secretary, Central Board,
State Bank of India,
Corporate Centre,
17th Floor, State Bank Bhavan,
Madame Cama Road, Mumbai-400 021.

(a) Any Shareholder with 50 shares and above, registered for a minimum period of 3 months prior to the date of the meeting and who continues to be a shareholder in the Register of the Bank's shareholders as on the date of election is eligible to vote.

(b) Any Shareholder with 500 and above unencumbered shares registered in his/her own right, is eligible to contest the election.

A. K. PURWAR
Chairman

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 8th July 2005

NOTIFICATION

No. U-16/53/2000/Med.II/(M.P.)—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Indore for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

Name, Period & Name of Centre

1. Dr. M. K. Chadha, 16.6.2005 to 15.6.2006, Pithampur (Distt. Dhar)

Dr. KAMLESH KALRA
Medical Commissioner

REGIONAL OFFICE (KARNATAKA)

ESI CORPORATION

Bangalore, the 11th July 2005

No. 53/V/34/14/11/99/BfIs.II—It is hereby notified that the Local Committee consisting of the following members has been re-constituted for BELLARY area under Regulation-10A of the ESI (General) Regulations, 1950 for a term of 3 years from the date of notification.

LOCAL COMMITTEE—BELLARY AREA

Chairman

(1) UNDER REGULATION 10-A(1) (a)

Assistant Labour Commissioner, Davangere.

Members

(2) UNDER REGULATION 10-A(1) (b)

Labour Officer, Bellary.

(3) UNDER REGULATION 10-A(1) (c)

Insurance Medical Officer, ESID, Bellary.

Members

(4) UNDER REGULATION 10-A(1) (d)

Employers' Representatives :

Bellary Steels & Alliance Ltd., Survey No. 10:11,
Ananthapura Road, Bellary.

Bellary Steels Roll Mills, Ananthapura Road, Bellary.

Pampasar Distilleries, Chittavadiga, Hospet.

Sri K. M. Yusuf, General Manager,

M/s. N. K. Steel Pvt. Ltd., Ananthapura Road, Bellary.

(5) UNDER REGULATION 10-A(1) (e)

Employees' Representatives :

Sri Harali Imamsab, Chairman, Pampasar Islam
Employees Union, Chittavadiga, Hospet.

Sri Venkataramana, CITU Office, Near Basavanakola, 4th
Ward, I.S.R. Road, Hospet.

Sri B. Pal Pakeerappa, S/o B. Gadeppa, Dist. Chairman,
Bellary Dist. Daily Workers Association (R), Kristu
Nivas, Plot No. 216 A Main Road, Cantonment, Bellary.

Sri R. Prakash, Secretary, Bellary Theatres Workers
Union, C/o AITUC, N 11, K. C. Road, Bellary.

Member/Secretary

(6) UNDER REGULATION 10-A(1) (f)

The Branch Manager, Branch Office, ESI Corporation,
Bellary.

By Order

JOSE CHERIAN
Regional Director